



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 131]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 27, 1981/चैत्र 6, 1903

No. 131]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 27, 1981/CHAITRA 6, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(वित्तिक कार्य विभाग)

(बैंकिंग प्रभाग)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 26 मार्च, 1981

का. जा. 224(अ).—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया के अनुरोध पर 27 मार्च, 1981 से बिहार राज्य में गोपालगंज क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नाम से एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना करती है जो कि बिहार राज्य के गोपालगंज जिले की स्थानीय सीमाओं में कार्य करेगा।

[संख्या एफ. 1-5/81-आर. आर. बी. (1)]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(Banking Division)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 26th March, 1981

S.O. 224(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government, being requested so to do by Central Bank of India, establishes, with effect from the 27th March, 1981, a Regional Rural Bank in the State of Bihar under the name of Gopalganj

Kshetriya Gramin Bank which shall operate within the local limits of the district of Gopalganj in the State of Bihar.

[No. 1-5/81-RRB(I)]

का. जा. 225(अ).—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक तथा गोपालगंज क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के प्रयोजक सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया से परामर्श करके, गोपालगंज को उस स्थान के रूप में निर्धारित करती है, जहाँ पर गोपालगंज क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का मुख्य कार्यालय होगा।

[संख्या एफ. 1-5/81-आर. आर. बी. (2)]

S.O. 225(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India and Central Bank of India, by which Gopalganj Kshetriya Gramin Bank has been sponsored, specifies Gopalganj as the place where Gopalganj Kshetriya Gramin Bank shall have its head office.

[No. F. 1-5/81-RRB(II)]

का. जा. 226 (अ).—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उपधारा (6) के खण्ड (क) के उपखण्ड (3) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उक्त उपखंड के प्रयोजनों के लिए, गोपालगंज क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, गोपालगंज को प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 3 की उपधारा

(1) के अन्तर्गत स्थापित एक संस्था के रूप में अभिसूचित करती है।

[संख्या एफ. 1-5/81-आर.आर.बी. (3)]

बलदेव सिंह, संयुक्त सचिव

S.O. 226(E).—In pursuance of sub-clause (iii) of clause (a) of sub-section (6) of section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Central Government hereby notifies, for the purposes of the said sub-clause, Gopalganj Kshetriya Gramin Bank, Gopalganj, being an institution established under sub-section (1) of section 3 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976).

[No. 1-5/81-RRB/III]

BALDEV SINGH, Jt Secy

भारतीय रिजर्व बैंक

ग्रामीण जायोजना तथा ऋण कक्ष

अभिसूचना

बम्बई, 27 मार्च, 1981

का. आ. 227 (अ).—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 21) की धारा 42 की उपधारा (6) के खंड

(क) के अनुसरण में, भारतीय रिजर्व बैंक एतद्वारा निदेश देता है कि उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में निम्न लिखित बैंक को समाविष्ट किया जाये, अर्थात् :—

“गोपालगंज क्षत्रीय ग्रामीण बैंक, गोपालगंज (बिहार)”

[आर.पी.सी. संख्या 215/आई.एन.सी.एल./311-81]

एम. वी. हटे, कार्यपालक निदेशक

RESERVE BANK OF INDIA

RURAL PLANNING AND CREDIT CELL

NOTIFICATION

Bombay, the 27th March, 1981

S.O. 227(E).—In pursuance of clause (a) of sub-section (6) of section 42 of the Reserve Bank of India, Act, 1934 (2 of 1934) the Reserve Bank of India hereby directs the inclusion in the Second Schedule to the said Act of the following bank, namely :—

“Gopalganj Kshetriya Gramin Bank, Gopalganj (Bihar)”.

[RPCC No. 215/INC/311-81]

M. V. HATE, Executive Officer.